

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी/ PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DHAMTARI
आवेदन फॉर्म/APPLICATION FORM

पदनाम /Post Applied: (संविदा आधारित/Contractual Basis)

Photograph

सी.टी.ई.टी./CTET पात्रता//Qualified: हाँ/नहीं YES/ NO

(यदि हाँ तो पी.आर.टी (paper-I)/टी.जी.टी (Paper-II) अथवा दोनों हेतु/

If Yes for PRT (Paper-I)/TGT (Paper-II) or both): Attach certificate

01. नाम/Name :

02. पत्राचार का पता/Address for communication:

.....
.....

फोन नं./Mobile No : ई-मेल/E mail ID:

03. जन्म-तिथि/Date of Birth : 04. Age (as On 31.3.2024) :

05. आधार नं./Aadhar No: 06. PAN :

07. सामाजिक श्रेणी/ Social category (Gen/SC/ST/OBC):

08. पिता/पति का नाम/Father/Husband Name :

09. शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता/Academic/Professional Qualifications. (Commencing from class 10th):

स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करें/Attach self attested Xerox copy.

| S.No | Name of examination/ Degree | Year of Passing | Total marks obtained/ Maximum marks | Aggregate % marks | Subjects offered | % in concerned subject | Board/ University |
|------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | High School/Class 10th | | | | | | |
| 2. | Sr Secondary/ Class 12 th | | | | | | |
| 3. | Graduation | | | | | | |
| 4. | Post Graduation | | | | | | |
| 5. | B.Ed/B.El.Ed /D.El.Ed | | | | | | |
| 6. | Others if any | | | | | | |

10. अनुभव/Experience: फोटो कॉपी संलग्न करें /Attach Xerox copy of certificate(s) issued by the Head of the Institution.

| S. No | Post Held | Name of the Institution | Period | | Number of Completed months | Subject and Classes taught |
|-------|-----------|-------------------------|--------|----|----------------------------|----------------------------|
| | | | From | To | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

12. क्या आप हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में सक्षम हैं/Are you able to teach in Hindi & English Medium?: हाँ /नहीं Yes /No

13. क्या आप कंप्यूटर प्रयोग ज्ञान रखते हैं/Do you have knowledge of Computer application?: Yes /No

14. क्या आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं? यदि हाँ तो उनका नाम, पदनाम एवं विद्यालय का नाम / Is your near relative (Father/Mother/Brother/Sister/Husband/Wife) is working in KV? If yes, name, Designation and KV of the relative.

15. क्या आपके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण चलाया गया है / Have you ever been prosecuted under criminal charges?: हाँ /नहीं Yes /No

16. आवेदित पद पर अपने उपयुक्तता पर संक्षिप्त विवरण/A short Note on your suitability for the post applied : (Maximum 50 words)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

17. I am fully aware of the fact that this interview is for fully temporary/contractual post and will not be confirmed at any point of time. Further I know that this interview is for making a panel of contractual teachers for academic session 2024-25 whose services may be utilized as per vacancy (as and when arise) and requirement of teachers in different KVs of Raipur region. Mere appearing in interview does not claim any right for appointment. Further I declare that the above particulars furnished by me are correct to the best of my knowledge and belief.

दिनांक/Date:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/Signature of candidate.....

स्थान/Place:

अभ्यर्थी का नाम/Name of Candidate:

(For office use only)

.....

जाँचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर